

# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 185]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 15, 1974/आषाढ़ 24, 1896

No. 185]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 15, 1974/ASADHA 24, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।  
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed  
as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

ORDER

New Delhi, the 15th July 1974

**G.S.R. 321(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) read with clause (h) of sub-rule (3) of rule 114 of the Defence of India Rules, 1971, the Central Government, being of the opinion that it is necessary and expedient so to do for securing the maintenance of supplies and services essential to the life of the community, and for securing the equitable distribution and availability of jute textiles at fair prices, hereby fixes the price mentioned in column (3) of the First Schedule appended to this Order as the maximum ex-factory price at which the varieties of jute textiles mentioned in the corresponding entries in column (2) of the said schedule shall be purchased or sold during the month of July 1974.

Provided that the price so fixed in respect of the variety of jute textiles mentioned in Serial No. 1 of the First Schedule appended to this Order shall be reduced to the extent specified in column (2) or column (3) of the Second Schedule appended to this Order in respect of the minimum breaking strength specified in the corresponding entries in column (1) of the Second Schedule.

Provided further that the prices specified in this Order are liable to be revised and finally fixed at such rate as may be determined by the Central Government after taking into consideration the recommendations of the Tariff Commission and the price so finally fixed shall be the price at which the supplier is entitled to be paid for deliveries made in the month.

**Explanation.**—For the purposes of this Order, the price specified in the First or Second Schedule appended to this Order shall be exclusive of the duty of excise and the sales tax which shall be paid in addition to the ex-factory price by the purchaser at actuals.

2. Nothing in this Order shall apply to any quantity of jute textiles which may be exported during the month specified in paragraph 1 pursuant to any contract entered into before the commencement of this Order.

## THE FIRST SCHEDULE

Sl. No.	Category of jute bags	Maximum ex-factory price
(1)	(2)	(3)
1.	Standard B.Twill bags of the size $43\frac{1}{2}'' \times 26\frac{1}{2}''$ , WIP $44'' \times 26\frac{1}{2}''$ HD $2\frac{1}{2}$ lbs per bag, $6 \times 8$ , 3 blue, dry sewn and conforming in all other respects to the current ISI specification (No. IS : 2566-1965 as amended upto-date)	Rs. 220.06 per 100 bags.
2.	DW Flour Bags $43\frac{1}{2}'' \times 28''$ HD weight in proportion $56'' \times 28''$ HD, $2\frac{1}{2}$ lbs per bag $7 \times 9$ or $8 \times 8$ plain dry sewn.	Rs. 199.85 per 100 bags.

## THE SECOND SCHEDULE

Minimum breaking strength	Reduction in price warp way	per 100 bags waft way
(1)	(2)	(3)
ISI Standard Breaking strength	160 Kg. Rs.	165 Kg. Rs.
160	--	0.53
155	0.39	1.02
150	1.06	1.50
145	1.62	2.11
140	2.24	3.42
135	2.86	4.27
130	3.42	..

[No. 18012/1/73-Tex(D)]

K. RAMANUJAM, Jt. Secy.

## बाणिज्य मंत्रालय

## आदेश

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 1974

जी०एस०आर० 321 (अ).—भारत रक्षा नियम, 1971 के नियम 114 के उप-नियम (3) के खंड (एच) के साथ पठित, उप-नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, ऐसी राय होने पर कि समाज के जीवन के लिए अत्यावश्यक वस्तुओं की सप्लाई तत्संबंधी सेवाओं को जारी रखने के उद्देश्य से और पटसन वस्त्रों के न्यायोचित वितरण और उचित मूल्यों पर उसकी उपलब्धि के उद्देश्य से ऐसा करना आवश्यक और उचित है, एतद्वारा, इस आदेश से संलग्न प्रथम अनुसूची के कालम (3) में उल्लिखित मूल्य, ऐसे अधिकतम एक्स फैक्टरी मूल्य के रूप में निश्चित करती है, जिस पर उक्त अनुसूची के कालम 2 की तदनुसूची प्रविष्टियों में उल्लिखित पटसन के वस्त्रों की किस्में जुलाई 1974 के मास में खरीदी या बेची जाएंगी।

परन्तु इस आदेश से संलग्न प्रथम अनुसूची की संख्या 1 में उल्लिखित पटसन के वस्त्रों की किस्म के बारे में इस प्रकार से निश्चित किए गए मूल्य को, इस आदेश से संलग्न द्वितीय अनुसूची के कालम (1) की तदनुरूपी प्रविष्टियों में निर्दिष्ट न्यूनतम धारण क्षमता (ब्रेकिंग स्ट्रेंथ) के अनुसार उक्त द्वितीय अनुसूची के कालम (2) या कालम (3) में बताई गई सीमा तक घटाया जायेगा।

परन्तु आगे इस आदेश में निर्दिष्ट कीमतें संशोधित की जा सकती हैं और अन्त में एसी दर पर निर्धारित की जाएंगी जो कि टैरिफ आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् केन्द्रीय सरकार द्वारा निश्चित की जाएं तथा इस प्रकार अंतिम रूप में निर्धारित कीमत वह कीमत होगी जिस पर संभरक को उस मास में मुपुर्दगियों के लिए भुगतान प्राप्त करने का हक है।

**स्पष्टीकरण.**—इस आदेश के प्रयोजन के लिए, इस आदेश से संलग्न प्रथम या द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट मूल्यों में उत्पादन शुल्क और बिक्री कर शामिल नहीं है, जिन्हें खरीदार को ही, वास्तविक आंकड़ों के आधार पर, एक्स-फैक्टरी मूल्य के अनिवार्य अंश करना होगा।

2. इस आदेश में दी हुई कोई भी बात पटसन वस्त्रों की एसी किसी भी मात्रा पर लागू नहीं होगी, जो इस आदेश के लागू होने से पहले किये गये किसी भी ठेके के अनुसरण में पैरा 1 में निर्दिष्ट मास के दौरान निर्यात की गई हो।

### प्रथम अनुसूची

क्रम सं०	पटसन के बोरे का दर्जा	अधिकतम एक्स-फैक्टरी मूल्य
----------	-----------------------	---------------------------

1.	स्टडर्ड बी ट्रुविल, बोरे साइज $43\frac{1}{2}'' \times 26\frac{1}{2}''$ जिसका वजन $44 \times 26\frac{1}{2}''$ एच डी $2\frac{1}{2}$ पौंड प्रति बोरी $6 \times 8.3$ ब्लू, खुशक सिली हुई के अनुपात में हो और जो शेष सभी प्रकार के वर्तमान आई० एस० आई० की विनिष्टियों के अनुरूप हो (सं० आई० एस० 2566-1965 अद्यतन तथा संशोधित)।	220.06 रुपये प्रति 100 बोरे
----	---	-----------------------------

डी डब्ल्यू ग्राटे के बारे $43'' \times 28\frac{1}{2}''$ एच० डी० अनुपात के अनुसार वजन, $56 \times 28''$ एच० डी० $21/2$ पौंड प्रति बोरा, $7 \times 9$ या $8 \times 8$ सादा, खुशक सिला हुआ।	199.85 रुपये प्रति 100 बोरे
---	-----------------------------

## द्वितीय अनुसूची

न्यूनतम धारण क्षमता (मिनिमम बैकिंग स्ट्रैथ)	प्रति 100 बोरी के मूल्य में कमी	
	(ताने में)	(बाने में)
ग्राई० एस० एस० स्टैंडर्ड (बैकिंग स्ट्रैथ)	160 किलोग्राम रुपये	165 किलोग्राम रुपये
160	—	0.55
155	0.39	1.02
150	1.06	1.50
145	1.62	2.11
140	2.24	3.42
135	2.86	4.27
130	3.42	—

[सं० 18012/1/73-टैक्स (डी)]

के० रामानुजम, संयुक्त सचिव ।